



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 571] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 1978/पौष 6, 1900
No. 571] NEW DELHI, WEDNESDAY DECEMBER 27, 1978/PAUSA 6, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम मंत्रालय

अधीक्षक

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1978

का. आ. 737 (अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिसम्बर का 31वां दिन, 1978 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78,

79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपबन्ध कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“जिला तुमकूर में

हबली कस्बा, तालुक तुमकूर की—

(क) तुमकूर शहर और अपाराहल्ली
तुमकूर शहर की पालिका सीमा, और

(ख) भीमसन्दरा, मारालेनाहल्ली,
आराके तथा देवरायपटना ग्रामों
के ग्राम-पंचायत सीमा के
अन्तर्गत क्षेत्र।”

[संख्या एस-38013/9/78-एच. आई.]

हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 1978

S.O. 737(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 31st day of December, 1978 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Karnataka, namely :—

“The Areas within—

- (a) the municipal limits of Tumkur city and Upparahalli Tumkur city; and
- (b) the village panchayat limits of Bheemasandra, Maralenahalli, Arakere and Devarayapatna villages;

in Hobli Kasaba, Taluk Tumkur, District Tumkur.”

[No. S-38013/9/78-HI]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.